



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 281]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4 1977/आषाढ़ 13, 1899

No. 281]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 1977/ASADHA 13, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

LOK SABHA SECRETARIAT

FORM I

[See rule 3 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974]

PUBLIC NOTICE

of

Election to the office of President of India

New Delhi, the 4th July, 1977

S.O. 513(E) —Whereas a notification under sub-section (1) of section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, for the holding of an election to fill the office of President of India has been issued by the Election Commission, I, Avtar Singh Rikhy, the Returning Officer for such election, do hereby give notice that—

- (1) nomination papers may be delivered by a candidate or any one of his proposers or seconders to the undersigned at his office in Room No. 18, Ground Floor, Parliament House, New Delhi, or if he is unavoidably absent, to the Assistant Returning Officer, Shri J. R. Kapur, Chief Legislative Committee Officer, Lok Sabha Secretariat, at the said office between 11 A.M. and 3 P.M. on any day (other than a public holiday) not later than the 18th July, 1977,

(2235)

- (ii) each nomination paper shall be accompanied by a certified copy of the entry relating to the candidate in the electoral roll for the Parliamentary constituency in which the candidate is registered as an elector,
- (iii) every candidate shall deposit or cause to be deposited a sum of rupees two thousand five hundred only. This amount may be deposited in cash with the Returning Officer at the time of presentation of the nomination paper or deposited earlier in the Reserve Bank of India or in a Government Treasury and in the latter case a receipt showing that the said deposit of the sum has been so made is required to be enclosed with the nomination paper,
- (iv) forms of nomination papers may be obtained from the above said office at the times aforesaid,
- (v) the nomination papers, other than those rejected under sub-section (4) of section 5B of the Act, will be taken up for scrutiny at the said office in Room No 18, Ground Floor, Parliament House, New Delhi on Tuesday, the 19th July, 1977 at 11 A.M.,
- (vi) the notice of withdrawal of candidatures may be delivered by a candidate, or any one of his proposers or seconders who has been authorised in this behalf in writing by the candidate, to the undersigned at the place specified in paragraph (i) above before three o'clock in the afternoon of Thursday, the 21st July, 1977,
- (vii) in the event of the election being contested, the poll will be taken on Saturday, the 6th August, 1977 between the hours of 10 A.M. and 5 P.M. at the places of polling fixed under the rules

NEW DELHI,
Dated the 4th July 1977.

[No 41/1/77/T]
AVTAR SINGH RIKHY,
Secretary Lok Sabha
and
Returning Officer for the
Presidential Election

लोक सभा सचिवालय

प्ररूप 1

[रा.रा.प. और उप-रा.रा.प. निर्वाचन नियम, 1974 का नियम 3 देखिये]

भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन
की

लोक सूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई 1977

का० प्रा० 513 (अ) --यह भारत के राष्ट्रपति पद को भरने के लिए निर्वाचन करने के लिए, निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना निकाल दी गई है, अतः ऐसे निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर मै, अवतार सिंह रिखी, सूचना देना है कि--

- (i) अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापको या समर्थको में से किसी एक द्वारा नामनिर्देशन-पत्र मुझे कमरा न० 18, निचली मजिल, समद भवन, नई दिल्ली में मेरे कार्यालय में या यदि मैं अग्रविर्जनीय रूप से अनुपस्थित हूँ, तो सहायक रिटनिंग आफिसर, श्री जे० आर० कपूर, मुख्य विधायी समिति अधिकारी, लोक सभा सचिवालय को उक्त कार्यालय में 18 जुलाई, 1977 के अनुपरांत (लोक अवकाश दिन से भिन्न) किसी दिन 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीच दिये जा सकेंगे,
- (ii) प्रत्येक नामनिर्देशन-पत्र के साथ, उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति लगाई जायेगी जिससे अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है,

- (iii) हर एक अभ्यर्थी केवल दो हजार पांच सौ रुपये की राशि जमा करेगा या जमा कराएगा। यह रकम नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग आफिसर के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और पश्चात् कथित दशा में ऐसी रसीद का, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामनिर्देशन-पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा ;
- (iv) नामनिर्देशन-पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त कार्यालय से पूर्वोक्त समय पर अभिप्राप्त किए जा सकेंगे ,
- (v) अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामजूर किए गए नामनिर्देशन-पत्रों से भिन्न नामनिर्देशन-पत्रों की सबीक्षा उपरोक्त कार्यालय, कमरा नं० 18 निचली मंजिल, संसद् भवन, नई दिल्ली में मंगलवार, 19 जुलाई, 1977 को 11 बजे पूर्वाह्न की जाएगी ,
- (vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी, या उसके प्रस्थापको या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, निम्न हस्ताक्षरकर्ता को, उपरोक्त पैरा (i) में विनिर्दिष्ट स्थान में गुरुवार, 21 जुलाई, 1977 को तीन बजे अपराह्न से पहले दी जा सकेगी ,
- (vii) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में मतदान, इन नियमों के अधीन नियत किए गए मतदान के स्थानों में शनिवार, 6 अगस्त 1977 को 10 बजे पूर्वाह्न और 5 बजे अपराह्न के बीच होगा।

नई दिल्ली ,
दिनांक 4 जुलाई, 1977

सं० 41/1/77/टी]

भवतार सिंह रिखी,
सचिव, लोक सभा
तथा

राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए
रिटर्निंग आफिसर।

मेहा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

